

-प्रेस नोट-
जनपद-मीरजापुर

दिनांक-27.07.2021

**थाना कोठकटरा क्षेत्रान्तर्गत पुरानी अंजही में हुई चोरी की घटना का पर्दाफाश, चोरी के जेवरात संग
एक अभियुक्त गिरफ्तार—**

दिनांक 13.07.2021 की रात्रि चोरों द्वारा मोहल्ला पुरानी अंजही स्थित संजय अग्रवाल के घर का ताला तोड़कर घर में से नगदी व जेवरात चोरी की घटना कारित की गई थी। जिसके सम्बन्ध में थाना कोठकटरा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग की विवेचना एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के क्रम में दिनांक 27.07.2021 को थाना कोतवाली कटरा पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त वाहिद खान उर्फ करिया पुत्र वकील अहमद निवासी कंतित थाना विंध्याचल जनपद मीरजापुर को समय 11.15 बजे रूखड़घाट तिराहा(इमामबाड़ा) के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी अभियुक्त द्वारा उपरोक्त चोरी की घटना को कारित करना स्वीकार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी के जेवरात (2 अदद सोने की चेन, 2 अदद सोने की अंगूठी, 2 अदद चाँदी का सिक्का, 3 जोड़ी चाँदी की पायल, 8 अदद चाँदी की बिछिया, 4 अदद चाँदी की गिलास, 2 अदद चाँदी की कटोरी) व नगद 270 रुपया के बरामद किया गया। कड़ई से पूछताछ करने गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह आज बेचने के लिए जा रहा था कि पकड़ लिया गया। कुछ और चाँदी के गहने व सामान जिसे उसने जरूरत पड़ने पर अपने घर से कुछ दूरी पर रहने वाले एक व्यक्ति को बेच दिया था। अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोठकटरा व कोठशहर पर करीब कुल 19 मुकदमें पंजीकृत है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त—

वाहिद खान उर्फ करिया पुत्र वकील अहमद निवासी कंतित थाना विंध्याचल जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास—

1. मु0अ0सं0 276/04 धारा 457/380/411 भादवि थाना कोतवाली शहर
2. मु0अ0सं0 382/04 धारा 457/380/411 भादवि थाना कोतवाली शहर
3. मु0अ0सं0 348/05 धारा 457/380 भादवि थाना कोतवाली शहर
4. मु0अ0सं0 242/06 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली शहर
5. मु0अ0सं0 152/07 धारा 110G दं0प्र0सं0 थाना कोतवाली शहर
6. मु0अ0सं0 329/07 धारा 8/211 NDPS Act थाना कोतवाली शहर
7. मु0अ0सं0 862/07 धारा 411/460 भादवि थाना कोतवाली शहर
8. मु0अ0सं0 147/08 धारा 3/4 गुण्डा नियंत्रण अधि0 थाना कोतवाली शहर
9. मु0अ0सं0 107/08 धारा 110G दं0प्र0सं0 थाना कोतवाली शहर

10. मु0अ0सं0 386/13 धारा 457/380/411 भादवि थाना कोतवाली शहर
11. मु0अ0सं0 2091/15 धारा 3/4 गुण्डा नियंत्रण अधि0 थाना कोतवाली शहर
12. मु0अ0सं0 569/16 धारा 457/380/411 भादवि थाना कोतवाली शहर
13. मु0अ0सं0 57/17 धारा 110G दं0प्र0सं0 थाना कोतवाली शहर
14. मु0अ0सं0 88/17 धारा 3(1) गुण्डा नियंत्रण अधि0 थाना कोतवाली शहर
15. मु0अ0सं0 230/17 धारा 323/504/506/452 भादवि व 3(1)द,ध SC ST Act थाना कोतवाली शहर
16. थाना कटरा में पूर्व के 3 मुकदमें व मु0अ0सं0 106/21 धारा 457/380/411 भादवि

विवरण बरामदगी—

1. 2 अदद सोने की चेन
2. 2 अदद सोने की अंगूठी
3. 2 अदद चाँदी का सिक्का
4. 3 जोड़ी चाँदी की पायल
5. 8 अदद चाँदी की बिछिया
6. 4 अदद चाँदी की गिलास
7. 2 अदद चाँदी की कटोरी
8. नगद 270 रुपये व उपरोक्त जेवरात की कीमत लगभग 1,50,000 रुपये।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम—

1. उ0नि0 संजीव कुमार सिंह, प्रभारी चौकी लालडिग्गी, थाना कोतवाली कटरा मीरजापुर।
2. हे0का0 मुन्ना सिंह यादव, चौकी लालडिग्गी, थाना कोतवाली कटरा मीरजापुर।
3. हे0का0 रविप्रकाश, चौकी लालडिग्गी, थाना कोतवाली कटरा मीरजापुर।
4. हे0का0 नियाज अहमद, चौकी लालडिग्गी, थाना कोतवाली कटरा मीरजापुर।
5. कां0 सुनील जायसवाल, चौकी लालडिग्गी, थाना कोतवाली कटरा मीरजापुर।

